



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 4—अप्रैल 10, 2009 (चैत्र 14, 1931)

No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 4—APRIL 10, 2009 (CHAITRA 14, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 2009

सं. आरएस.3/2/1/2009/8—कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत अनुसंधान अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह को 20 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर सहायक निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में 15,600—39,100 रुपए के वेतन बैंड-3 + 6,600 रुपए के ग्रेड वेतन (अनंतिम) में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

सी. बी. राय, निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2009

सं. ए-19011/02/2008-प्रशा.-1--श्री के.सी. वर्मा, भा.पु.से. (जे.एच. : 71) ने अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंध, मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव के रूप में अपनी नियुक्ति के परिणामस्वरूप 31 जनवरी, 2009 के अपराह्न से मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (सुरक्षा) का पदभार छोड़ दिया है।

आर. कृष्णमूर्ति, अवर सचिव

सं. ए-43013/01/2006-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, 31 अक्टूबर, 2007 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर उप सचिव (तदर्थ) के रूप में सेवानिवृत्त श्री पी. एस. वर्मा को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 दिसंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/1/2007-सीएस.1(डी) द्वारा वर्ष 2003 के लिए केंद्रीय सचिवालय सेवा की चयन वेतनमान (उप सचिव) की चुनिंदा सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, उन्हें 1 जुलाई, 2003 से नियमित आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के चयन वेतनमान (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

आर. कृष्णमूर्ति, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2009

सं. एफ.6(2040)/2008-प्रशासन-1--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 फरवरी, 2009 के आदेश सं. 07/3/2009-ई.ओ.(एस.एम.1) के तहत सूचित मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के अनुमोदन का अनुपालन करते हुए, डॉ. सुवास चन्द्र पाणि, आई.ए.एस. (उड़ीसा:72) को उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि, दिनांक 28 फरवरी, 2009 से आगे छह माह की अवधि के लिए योजना आयोग में सचिव के पद पर, लोक हित में, राष्ट्रपति, सहर्ष पुनर्नियुक्त करते हैं।

2. डॉ. पाणि वर्तमान रतों के अनुसार ही आवासोद्य सुविधा के हकदार होंगे।

अनिल मल्होत्रा, उपाध्यक्ष

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 मार्च 2009

सं. 181/1/2008--कार्मिक, लोक-शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 फरवरी, 2009 को संदर्भ सं. 14/3/2006-डि.ओ. (एमएम-1) के अनुसरण में श्री आर. आर. पाण्डेय, आई.ए.एस. (केएन:98) के एतद्वारा तेरहवें विल आयोग में उप सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए 19.03.2009 (पूर्वाह्न) से भारत निर्वाचन आयोग से भार मुक्त किया जाता है।

सतीश राम, अवर सचिव

सं. ए-19/जी-ए 96--श्री आशीष श्रीवास्तव भारतीय प्रशासनिक सेवा (म.प्र.:92) जिनकी सेवाएं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की संदर्भ संख्या 14/1/2009-डि.ओ. (एमएम-1) दिनांक 13.3.2009 द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई हैं, 19 मार्च, 2009 अपराह्न से निवृत्त, भारत निर्वाचन आयोग के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं।

सतीश राम, अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 मार्च 2009

सं. 12016/5/2004-एसएसएस--अधिवर्धिता की आयु प्राप्त करने पर, अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के निम्नलिखित ग्रेड-1 सांख्यिकीय अन्वेषक उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं :-

क्रम सं.	नाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1	2	3
	सर्वश्री:श्रीमती	
1.	पी. के. प्रसाद	31.08.2008
2.	एम. पी. सिंह	31.08.2008
3.	वाई. मोहनलाल	31.08.2008
4.	एल. सी. एस. चौहान	31.08.2008
5.	डी. लाल	31.08.2008
6.	हरमोहन लाल	31.08.2008
7.	एन. के. रामाधर	31.08.2008
8.	पी. जय. डी. राजन	31.08.2008
9.	ए. पी. सिंह	31.08.2008
10.	चरनजीत लाल	30.09.2008

1	2	3
11.	ए. ए. श्रीवास्तव	30.09.2008
12.	डी. एच. पांडेय	31.10.2008
13.	एन. सी. कामाधर	31.10.2008
14.	मोहन लाल	31.10.2008
15.	सुधीर कुमार	31.10.2008
16.	एस. के. हनुपति	31.10.2008
17.	हरेश चन्द्र सिंह	31.10.2008
18.	एस. सी. महापात्रा	30.11.2008
19.	खुमन प्रसाद	30.11.2008
20.	एस. के. चौधरी	30.11.2008
21.	धानेश्वर मालाकर	30.11.2008
22.	बी. के. मुरलीधरन	31.12.2008
23.	पी. के. म्यावंशो	31.12.2008
24.	जी. एम. शर्मा	31.12.2008
25.	एन. के. मिश्रा	31.12.2008
26.	बी. बी. मल्होत्रा	31.12.2008
27.	देव राज	31.12.2008
28.	पी. मर्यादा	31.12.2008
29.	के. शिवपुरुषोत्तम	31.12.2008

उपरोक्त के अतिरिक्त, अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-1 के दो सांख्यिकीय अन्वेषक को उनके नाम के सामने दी गई तारीख को मृत्यु हो गई है :-

1.	धरमेश्वर मालाकर	07.10.2008
2.	के. सी. राव बोहापती	16.10.2008

3. इसके अतिरिक्त, अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-1 के चार सांख्यिकीय अन्वेषक ने उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से सरकारी सेवा से स्वोच्छेदक सेवानिवृत्ति ले ली है :-

1.	एम. जे. धर्मा	01.09.2008
2.	के. जय. व्यंग	01.10.2008
3.	अर. सी. श्रीवास्तव	01.11.2008
4.	एम. बी. देसाय	01.11.2008

अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 20 जनवरी 2009

सं. के. 11017/14/2008-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के उपरान्त, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री प्रकाश चन्द्र वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 4 फरवरी, 2009 को या इससे पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के. 11017/13/2008-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के उपरान्त, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री धीरू भाई नारणभाई पटेल को झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 4 फरवरी, 2009 को या इससे पूर्व झारखंड उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 17 मार्च 2009

सं. के. 13024/4/2008-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री तिरुनीलकण्ठम सुदन्तिरम, (ii) श्री सामिनादन नागमुत्तु और (iii) श्री शन्मुगवेल पलनिवेलु को, उसी वरीयता क्रम में, दिनांक 22.3.2009 से दो वर्ष की अवधि के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के. 13019/1/2008-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री कुलदीप सिंह, और (ii) श्री राजीव शर्मा को, उसी वरीयता क्रम में, दिनांक 3.4.2009 से दो वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 मार्च 2009

सं. 14016/28/2005-यू टी एस-II--संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, तथा दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियमावली, 2003 के नियम 10 के उप-नियम (1) के साथ पठित

नियम 7 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत श्री सुशील कुमार सिंह, संख्या (डी-1/609) दिल्ली पुलिस के निरीक्षक को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली की पुलिस सेवा (दानिप्स) में 14 जनवरी, 2009 से, काडर में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 6,500-200-10,500/- (संशोधन पूर्व) रु. के वेतनमान में प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्त करते हैं। तथापि इस अधिकारी को अपने कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख अर्थात् 30 अक्टूबर, 2006 से 'कल्पित पदोन्नति' का लाभ अनुमेय होगा।

जे. के. सिंह, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2009

सं. आई-14011/19/2008-आईपीएस-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 03.03.2009 को चयन समिति की दिनांक 18.12.2008 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई वर्ष 2008 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के उत्तराखंड संवर्ग में वर्ष 2008 में एक मौलिक रिक्ति को भरे जाने हेतु उत्तराखंड राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी श्री पुष्पक ज्योति (जन्म तिथि : 01.06.1962) का नाम शामिल किया गया है।

2. प्रोन्नति पर दी जाने वाली उपरोक्त नियुक्ति प्रोवेन्शियल पुलिस सेवा संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल के समक्ष दायर याचिका संख्या 147(एस/बी)/2007 में दिए गए अंतरिम आदेश दिनांक 29.06.2007 के अनुसरण में उपरोक्त याचिका के परिणाम के अध्वधीन होंगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/19/2008-आईपीएस-1(II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखंड राज्य पुलिस सेवा के सदस्य श्री पुष्पक ज्योति (जन्म तिथि : 01.06.1962) को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत उत्तराखंड संवर्ग प्रदान करते हैं।

2. प्रोन्नति पर दी गई उपरोक्त नियुक्ति प्रोवेन्शियल पुलिस सेवा संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल के समक्ष दायर याचिका संख्या 147(एस/बी)/2007 में दिए गए अंतरिम आदेश दिनांक 29.06.2007 में दिए गए अंतरिम आदेश दिनांक 29.06.2007 के अनुसरण में उपरोक्त याचिका के परिणाम के अध्वधीन होंगी।

3. यह नियुक्ति अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2009

सं. 37/1/2008-ई ए-श्री उत्पल चक्रवर्ती, सहायक अभिरक्षक भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय, कोलकाता को तत्काल प्रभाव से 6,500-10,500 रु. के वेतनमान में विलयन आधार पर सहायक शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप-बी राजपत्रित, सर. मंत्रालीय पद पर नियुक्त किया जाता है।

इसे सक्षम प्राधिकारों के अनुमोदन से जारी किया जात है।

एम. की. आहूजा, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2009

सं. 14015/11/2008-अ.भा.से. (11)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष 2008 की चयन सूची के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत कर्नाटक के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत 23 दिसम्बर, 2008 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 27 फरवरी, 2009 को अनुमोदित की गई कर्नाटक राज्य की राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के नामों वाली चयन सूची को अधिसूचित करते हैं।

चयन सूची-2008

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि
	सर्वश्री	
1.	आर. शंताराज	14.06.1954
2.	एस. एम. गङ्गनाशेटी	01.08.1957
3.	एस. संकरनाथय्य	18.11.1955
4.	बी. एन. कृष्णय्य	05.07.1955
5.	ए. एम. कुंजप्पा	15.09.1956

एस. एस. शुक्ल, अवर सचिव

दिनांक 20 मार्च 2009

सं. 14015/09/2008 अ.भा.से. (11)-क-- भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, चयन सूची 2007 और 2008 के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित

राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर श्रेणी के भा.प्र.से. संवर्ग में पदोन्नति कोटा रिक्तियों को भरने हेतु विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 09 मार्च, 2009 को अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों वाली जम्मू और कश्मीर के सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करते हैं :-

चयन सूची-2007

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि
	श्री.सर्वश्री	
1.*	मोहम्मद असलम लाय्यू	14.06.1952
2./a	तुषार कान्ति शर्मा	17.09.1955
3.	मोहम्मद अशरफ बुखारी	20.03.1956
4.	मोहम्मद अब्बास दार	10.01.1954
5.	श्रीमती शगुप्ता परवीन	27.03.1955
6.	शेख मुश्ताक अहमद	04.12.1954

* क्रम सं. 1 पर नाम को उनके विरुद्ध लम्बित आपराधिक कार्यवाही के समाशोधित होने और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र के दिए जाने के अध्यधीन सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया है।

/// क्रम सं. 2 पर नाम को राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र दिए जाने के अध्यधीन सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया है।

चयन सूची-2008

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि
	श्री.सर्वश्री	
0ए*	मोहम्मद असलम लाय्यू	14.06.1952
0बी#	तुषार कान्ति शर्मा	17.09.1955
1.	श्रीमती विनीता गुप्ता	20.05.1957
2./a	मोहम्मद अफजल चट	31.03.1958
3.	शाहिद अनयतुल्लाह	20.07.1959

* क्रम सं. 0ए पर अधिकारी को भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 5(5) के दूसरे परन्तुक के अनुसार सूची की सामान्य साइज के अतिरिक्त शामिल किया गया है। उन्हें सूची में आपराधिक कार्यवाही के समाशोधित होने तथा राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र दिए जाने के अध्यधीन अंतिम रूप से भी शामिल किया गया है।

क्रम सं. 0बी पर अधिकारी को भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 5(5) के दूसरे परन्तुक के अनुसार सूची की सामान्य साइज के अतिरिक्त शामिल किया गया है। उन्हें सूची में राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र दिए जाने के अध्यधीन अंतिम रूप से भी शामिल किया गया है।

@ क्रम सं. 2 पर नाम को उसके विरुद्ध लम्बित आपराधिक कार्यवाही के समाशोधित होने तथा राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र दिए जाने के अध्वधीन अनंतिम रूप से भी शामिल किया गया है।

2. चयन सूचियों में उपयुक्त अधिकारियों को शामिल किया जाना श्री बशीर अहमद वान द्वारा दायर की गई एस.डब्ल्यू.पी. सं. 244/2007 के अनंतिम परिणाम के अध्वधीन होगा।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 23 मार्च 2009

सं. 14015/09/2008-अ.भा.से.(1)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को चयन सूची वर्ष 2007 और 2008 के लिए राज्य सरकार से परामर्श करके उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर, अगले आदेश तक, नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के भारतीय प्रशासनिक संवर्ग में आर्बिट्रित करते हैं :-

चयन सूची-2007

क्र.सं.	अधिकारी का नाम
	श्री/सर्वश्री
1.	मोहम्मद अशरफ बुखारी
2.	मोहम्मद अब्बास दार
3.	श्रीमती शगुफ्ता परवीन
4.	शेख मुश्ताक अहमद

चयन सूची-2008

क्र.सं.	अधिकारी का नाम
	श्री/सर्वश्री
1.	श्रीमती विनीता गुप्ता
2.	शाहिद अनयतुल्लाह

2. चयन सूचियों में उपर्युक्त अधिकारियों को नियुक्ति श्री बशीर अहमद वान द्वारा दायर की गई एस.डब्ल्यू.पी. सं. 2449/2007 के अंतिम परिणाम के अध्वधीन होंगी।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/11/2008-अ.भा.से.(1)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के

नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष 2008 की चयन सूची के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत कर्नाटक के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोट की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत 23 दिसम्बर, 2008 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 27 फरवरी, 2009 को अनुमोदित की गई कर्नाटक राज्य की सिविल सेवा अधिकारियों के नामों वाली चयन सूची को अधिसूचित करते हैं :-

चयन सूची-2008

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि
	श्री/सर्वश्री	
1.	आर. शांताराज	14.06.1954
2.	एस. एस. पाट्टनाशेट्टी	01.08.1957
3.	एस. शंकरनारायण	18.11.1955
4.	बी. एन. कृष्णय्या	05.07.1955
5.	ए. एम. कुंजप्पा	15.09.1956

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/11/2008-अ.भा.से.(1)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष 2008 की चयन सूची के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से परामर्श करके उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर कर्नाटक की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के तहत उन्हें कर्नाटक संवर्ग में आर्बिट्रित करते हैं :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम
	श्री/सर्वश्री
1.	आर. शांताराज
2.	एस. एस. पाट्टनाशेट्टी
3.	एस. शंकरनारायण
4.	बी. एन. कृष्णय्या

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली-11, दिनांक 2 फरवरी 2009

सं. क्यू/पी.ए-1/10/2009--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि. से.) के ग्रेड-IV निम्नलिखित अधिकारियों को प्रोफार्मा प्रोन्नति के

आधार पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीखों के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-III में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं :

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरांत ग्रेड	पदोन्नति की तारीख
1.	श्री पर्यधनेनी हरेश	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III	10.01.2009
2.	श्री प्रदीप कुमार रावत	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III	16.01.2009
3.	श्री पवन कपूर	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III	01.02.2009

2. अधिकारियों को उनके नाम के सामने लिखी गई तारीख के (पूर्वाह्न) से भा.वि.से. के ग्रेड-III में नियुक्ति का निम्नलिखित एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के 15 जुलाई, 1985 के का. जा. सं. 8-4-84-स्था. (घेतन) की शर्तों के प्रोफार्मा में पदोन्नति के आधार पर की जाती है।

रुद्र गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव
(एफ.एस.पी. और कैडर)

सं. क्यू.पी.ए.-1/11/2009-राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-IV में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने लिखी गई तारीख के अनुसार पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-III में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरांत ग्रेड	पदोन्नति की तारीख
1.	श्री सी राजशेखर	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III	16.01.2009
2.	श्री दिनेश के. परनाथक	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III	16.01.2009
3.	श्री आर्डी. एम. पाण्डे	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III	01.02.2009
4.	श्री सार्थी मनमोहा	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III	16.01.2009
5.	श्री संजय वर्मा	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III	01.02.2009

2. भा.वि.से. के ग्रेड-III में पदोन्नति पर उक्त अधिकारियों ने भा.वि.से. के ग्रेड-IV में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख के पूर्वाह्न से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भा.वि.से. के ग्रेड-III में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रुद्र गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव
(एफ.एस.पी. और कैडर)

सं. क्यू.पी.ए.-1/12/2009-राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के कनिष्ठ प्रशासन ग्रेड में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने लिखी गई तारीख के अनुसार पूर्वाह्न

से इस सेवा के ग्रेड-IV में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरांत ग्रेड	पदोन्नति की तारीख
1.	श्री पी. एम. धामन	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	01.02.2009
2.	श्री मनु सहकर	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	01.01.2009
3.	सुश्री एस. कपूर सहकर	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	01.01.2009
4.	श्री वाइ.के. शैलेस धर्मान	कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	01.01.2009

2. भा.वि.से. के ग्रेड-IV में पदोन्नति पर उक्त अधिकारियों ने भा.वि.से. के कनिष्ठ प्रशासन के ग्रेड में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख के पूर्वाह्न से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भा.वि.से. के ग्रेड-IV में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रुद्र गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव
(एफ.एस.पी. और कैडर)

दिनांक 3 फरवरी 2009

सं. क्यू.पी.ए. 1/13/2009-अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री रवि मोहन अग्रवाल, राजदूत, भारतीय राजदूतावास साना से 31 जनवरी 2009 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रुद्र गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव
(एफ.एस.पी. और कैडर)

दिनांक 25 फरवरी 2009

सं. क्यू.पी.ए.-1/14/2009-राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-IV में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 04 फरवरी, 2009 के पूर्वा. से इस सेवा के ग्रेड-III में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं :--

अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरांत ग्रेड
श्री महमूद हमैद	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III

2. भा.वि.से. के ग्रेड-III में पदोन्नति पर उक्त अधिकारी ने भा.वि.से. के ग्रेड-IV में 04.02.2009 के पूर्वाह्न से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भा.वि.से. के ग्रेड-III में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रुद्र गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव
(एफ.एस.पी. और कैडर)

दिनांक 2 मार्च 2009

सं. क्यू./पी.ए-1/15/2009--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-IV में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 01 मार्च, 2009 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-III में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं :--

अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरांत ग्रेड
श्री वानलाल हूमा	भा.प्र.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III

2. भा.वि.से. के ग्रेड-III में पदोन्नति पर उक्त अधिकारी ने भा.वि.से. के ग्रेड-IV में 01.03.2009 के पूर्वाह्न से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भा.वि.से. के ग्रेड-III में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रुद्र गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव
(एफ.एस.पी. और कैडर)

सं. क्यू./पी.ए-1/16/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री सत्यव्रता पाल, उच्चायुक्त, भारतीय उच्चायोग इस्लामाबाद से 28 फरवरी 2009 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रुद्र गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव
(एफ.एस.पी. और कैडर)

दिनांक 4 मार्च 2009

सं. क्यू./पी.ए-1/17/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री एम. सी. नैथानी, मंत्री, भारतीय दूतावास, डबलिन से 28 फरवरी 2009 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रुद्र गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव
(एफ.एस.पी. और कैडर)

दिनांक 16 मार्च 2009

सं. क्यू./पी.ए-1/18/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री राम रत्न, कौंसलर, भारतीय दूतावास, काबुल से 28 फरवरी 2009 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रुद्र गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव
(एफ.एस.पी. और कैडर)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2009

सं. ए.12011/15/08-प्रशा.1ए--राष्ट्रपति, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में तकनीकी अधिकारी (टीआरयू) श्री एम. वी. वासुदेवन को

15,600-39,100 रुपए + 6,600 रुपए ग्रेड पे (10,000--15,200/- रु. पूर्व संशोधित) के पे बैंड-3 में तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर आरंभ में 31 मार्च, 2009 तक आर्थिक कार्य विभाग में उप निदेशक (डोएमओ), समूह "क" राजपत्रित के अस्थायी पद पर नियुक्त करते हैं।

उपरोक्त तदर्थ नियुक्ति उन्हें नियमितीकरण अथवा भविष्य में वरिष्ठता इत्यादि जैसे लाभों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

सं. ए.22011/1/2009-प्रशा.1ए--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान (एसटीएस) अधिकारी डॉ. पी. जी. एस. राव को 6,600 रु. ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100 रु. के वेतन बैंड-3 में 6 मार्च, 2009 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में उप निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 20 मार्च 2009

सं. ए.12011/11/2006-प्रशा.1ए--इस विभाग की 26 दिसम्बर, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 37,400--67,000 रु. + 8,700 रु. ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-4 में निदेशक (राजभाषा) (समूह 'क', राजपत्रित, अनुसूचिवीय) पद पर श्री अमरनाथ की तदर्थ नियुक्ति का कार्यकाल 14.06.2009 तक बढ़ाया जाता है।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2009

सं. 11012/1/2007-आईईएस--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, 2007 में सफलता प्राप्त करने वाले निम्नलिखित अभ्यर्थियों को भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 के यथा संशोधित नियम 6 (क) के अंतर्गत भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) में कनिष्ठ समय मान में पूर्व संशोधित 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	कार्य ग्रहण करने की तिथि
1	2	3
1.	सुश्री तन्वी गर्ग	02.03.2009 (पूर्वाह्न)
2.	श्री मनु जे. वेट्टीकन	02.03.2009 (पूर्वाह्न)
3.	श्री रंगीत घोष	02.03.2009 (पूर्वाह्न)
4.	श्री अभिषेक आचार्य	02.03.2009 (पूर्वाह्न)
5.	सुश्री ज्योति यादव	02.03.2009 (पूर्वाह्न)
6.	सुश्री मोनिका जेटली	02.03.2009 (पूर्वाह्न)

1	2	3
7.	श्री रहीम एम.	02.03.2009 (पूर्वाह्न)
8.	श्री सुब्रत कुमार प्रधान	02.03.2009 (पूर्वाह्न)
9.	श्री सोनार्माण झाओबम	02.03.2009 (पूर्वाह्न)
10.	श्री दीपक गव	02.03.2009 (पूर्वाह्न)
11.	श्री सुभार्जित राय	02.03.2009 (पूर्वाह्न)
12.	श्री राकेश च.	02.03.2009 (पूर्वाह्न)
13.	श्री जितेंद्र सिंह	02.03.2009 (पूर्वाह्न)
14.	सुश्री मनोषा मीण	02.03.2009 (पूर्वाह्न)
15.	श्री प्रसन्ना बी. सालियन्	02.03.2009 (पूर्वाह्न)
16.	श्री शशि कुमार एस	02.03.2009 (पूर्वाह्न)
17.	श्री अरुण प्रसाद टी.	02.03.2009 (पूर्वाह्न)
18.	सुश्री ममता	02.03.2009 (पूर्वाह्न)
19.	सुश्री श्वेता	02.03.2009 (पूर्वाह्न)
20.	सुश्री जया प्रियदर्शिनी यारिकीपति	02.03.2009 (पूर्वाह्न)

राजन कुमार, निदेशक (आईईएम)

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 2009

सं. ए-19011/237/2004-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री अमिताभ बच्चन, आईएएस (बिहार : 82), संयुक्त सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को दिनांक 18.03.2009 के पश्चात् 3 साह की अवधि के लिए बढ़ाते हैं।

रमण कुमार गौड़, अवर सचिव

दिनांक 18 मार्च 2009

सं. ए-32014/1/2004-स्थापना--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 30.06.2009 तक, अथवा नियमित पदधारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :-

1. श्री जे. के. गोवर
2. श्री टी. के. डाम
3. श्री वाइ. के. वांशपट
4. श्री ए. के. शर्मा

2. उपरोक्त अधिकारियों को तदर्थ पदोन्नति से उन्हें नियोजन नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होगा और इस गैर में अल्पाधिक आधर पर उनके द्वारा दी गई सेवाएं अगले उक्त गैर में पदोन्नति हेतु नहीं गिनी जाएंगी।

रमण कुमार गौड़, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2009

सं. ए-11019/2/2008 ई.जी.--राष्ट्रपति, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के श्री समीरन दास II को दिनांक 20.01.2009 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 15,600--39,100/- रुपए (ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) के वेतनमान में महालेखाकार कार्यालय (ए. एंड ई.), पश्चिम बंगाल, कोलकाता में कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. प्रेम आनन्द, अवर सचिव

दिनांक 19 मार्च 2009

सं. ए-11019/4/2008 ई.जी.--राष्ट्रपति, भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग के श्री सत्य नागयण राय को दिनांक 28.01.2009 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 15,600--39,100/- रुपए (ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) के वेतनमान में महालेखाकार कार्यालय (ए. एंड ई.), उड़ीसा, भुवनेश्वर में कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. प्रेम आनन्द, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2009

सं. ए-12026/6/2007-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी.एस.एस.एस.) के निम्नलिखित तदर्थ प्रधान निजी सचिवों को चयन सूची वर्ष 2003 के अनुसार उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से संशोधित वेतन बैंड+ग्रेड वेतन अर्थात् पी.बो. 3 में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 15,600--39,100/- रुपए + 6,600 रुपए (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में प्रधान निजी सचिवों के रूप में नियमित नियुक्ति हेतु नियुक्त करते हैं :

क्र. सं.	नाम	विभाग जहां नामित किए गए हैं	चयन सूची वर्ष	नियुक्ति की तारीख
संवर्ध				
1.	आई. एस. मुदीगल	व्यय	2003	20.02.2009
2.	नाहर सिंह	व्यय	2003	20.02.2009

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 20 मार्च 2009

सं. ए-22015/3/2007-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत श्रीमती प्रिया पी. नायर (आई. ई.एस.) को वेतन बैंड पी.बो.-3 (15,600-39,100/- रुपए) + 6,600 रुपए (ग्रेड वेतन) से 03 मार्च, 2009 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उप निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2009

सं. ए-12023/1/2009-स्था.-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 जनवरी, 2009 के का.ज्ञा. सं. 5/6/2008-सीएस.-II के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा वाणिज्य विभाग में वरिष्ठ पीपीएस (तदर्थ) श्रीमती अनीता चक्रवर्ती को वाणिज्य विभाग के सीएसएसएस संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजि सचिव की चयन सूची वर्ष 2007 में वाणिज्य विभाग में दिनांक 21 जनवरी, 2009 से नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

राम लखन, अवर सचिव

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 2009

सं. 9/2009 (फा. सं. 6/2331/2004/एच आर डी-1/961)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस कार्यालय के उप महानिदेशक, विदेश व्यापार श्री कुशल कुमार, 31.03.2008 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. एस. बिष्ट, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2009

सं. ए-45011/04/2008-स्था.-I--इस विभाग की दिनांक 21.1.2009 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित अधिकारियों के नाम तदर्थ अनुभाग अधिकारियों की सूची से हटा दिए गए हैं, क्योंकि ये अधिकारी दिनांक 5.9.2008 की अधिसूचना सं. ए-45011/02/2005-स्था.-I के द्वारा नियमित चयन सूची 2003 में शामिल कर लिए गए हैं :-

क्र.सं.	नाम	विभाग/कार्यालय जहां वर्तमान में तैनात हैं
1.	श्री डी. वी. वसावे	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
2.	श्रीमती बी. के. सेठी	भारी उद्योग विभाग

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

दिनांक 16 फरवरी 2009

सं. ए-19011/721/2008-स्थापना-I--श्री डी. आर. एस. चौधरी भा.प्रशा.सेवा (मध्य प्रदेश : 77) को गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप उन्होंने 16 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न से औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

दिनांक 28 फरवरी 2009

सं. ए-19012/867/91-स्थापना-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी और तदर्थ आधार पर अवर सचिव (केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I) के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे श्री आर. सी. नारंग 28 फरवरी, 2009 को अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाएंगे।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2009

सं. ए-12025/1/2005-प्रशासन--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक ग्रेड "बी" सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2005 उत्तीर्ण करने और तत्पश्चात् कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 16.3.2009 के अपने का.ज्ञा. सं. 05/02/2009-सीएस-II के तहत उन्हें नामित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के निम्नलिखित स्थायी आशुलिपिक ग्रेड "सी" आशुलिपिकों को इस मंत्रालय में सीएसएसएस संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड "ए तथा बी" (सम्मिलित) (निजि सचिव के रूप में पदनामित) के पद पर 2005 की चयन सूची के अनुसार नियमित आधार पर 16.3.2009 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं:-

1. श्रीमती विभा अत्री
2. श्री कमल किशोर

आनन्द प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 20 मार्च 2009

सं. ए-12025/1/2005-प्रशासन--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.11.2008 के का.ज्ञा. सं. 5/12/2007-सीएस-II के तहत वर्ष 2005 के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "ए तथा बी" (सम्मिलित) की चयन सूची में नाम शामिल होने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के स्थायी आशुलिपिक ग्रेड "सी" श्री अनिल कुमार को, इस मंत्रालय में आशुलिपिक ग्रेड "ए तथा बी" (सम्मिलित) (निजि सचिव के रूप में पदनामित) के पद पर 19.3.2009 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री अनिल कुमार को इस मंत्रालय के सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड "ए" तथा "बी" (सम्मिलित) की चयन सूची, 2005 में शामिल किया जाता है।

आनन्द प्रकाश, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 2009

सं. 2(2)/2004-स्थापना--वर्ष 2004-05 के लिए केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की आशुलिपिक ग्रेड ए तथा बी (विलयित)

(निजि सचिव) की प्रवक्तृत्वा (वरिष्ठता कोटा) में उनका नाम शामिल किए जाने पर तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.11.2008 के कार्यालय आपन सं. 5/12/2007-सीएस. II के जॉर्ज इस्लाम मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की आशुलिपिक ग्रेड ए तथा बी (विलयित) प्रवक्तृत्वा में उनको शामिल करने हेतु उनका मनोभयन किए जाने पर श्रीमती वीना सचदेवा, रक्षा मंत्रालय को तदर्थ निजि सहायक को दिनांक 23.02.2009 में इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की आशुलिपिक ग्रेड ए तथा बी (विलयित) की प्रवर सूची 2005 में शामिल किया जाता है।

2. राष्ट्रपति श्रीमती वीना सचदेवा को इसी सेवा तथा संवर्ग में नियमित आधार पर 23.02.2009 (एफ/एन) में निजि सहायक (आशुलिपिक ए तथा बी (विलयित)) के रूप में नियुक्त करते हैं।

जो. वैश्वेश्वरन, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 मार्च 2009

सं. ए-12026/1-2008-सी.पी.डब्ल्यू - केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, प्रधान बेंच, दिल्ली के 13.02.2009 को ओ ए संख्या 52/2009 के निर्णय के परिणामस्वरूप में डॉ. संतो प्रसाद गौतम, के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली में नियुक्ति के संबंध में दिनांक 29 जनवरी को समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित पैग हटा दिया गया है :-

“नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल प्रधान बेंच नई दिल्ली के समक्ष ओ ए संख्या 52/2009 में अंतिम आदेश की शर्त के अधधीन होगी।”

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003 दिनांक 16 फरवरी 2009

सं. 18012/04/2008-आईएफएम II - भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1968 के नियम 3(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 31.05.1998 से श्री अरविंद सिंह को भारतीय वन सेवा (भारतीय वन सेवा में नियुक्ति की तारीख 01.06.1995) में पुष्ट करती है।

जोसेफ लुइखम, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 मार्च 2009

सं. 27013/01/2009-आईएफएम-II--मंत्रालय के दिनांक 26 जून, 2001 की अधिसूचना सं. 17013-07-99-आईएफएम. II में आंशिक संशोधन करने हुए, श्री ए. के. गुप्ता को जन्मतिथि 01.04.1949 के स्थान पर 01.07.1949 पढ़ा जाए।

सी. एम. शर्मा, अवर सचिव

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 मार्च 2009

सं. ए-24011/1-2008-प्रशासकीय-1 - राष्ट्रपति श्री सुशोभ कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक (वैज्ञानिक 'ग') को 16 मार्च 2009 के पूर्वाह्न

में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 6600 रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600/- 59,100/- रु. (पे बैंड-3) के वेतनमान में स्थाई आमन्त्रण आधार पर नियुक्त करते हैं।

यू. चटर्जी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 2009

सं. ए-38012/2-2008-प्रशासन-II - सेवानिवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप डॉ. रवीन्द्र नाथ सल्हन, अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिनांक 28.02.2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

आर. के. कालड़ा, उप निदेशक प्रशासन (आर.के.के.)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2009

सं. 19012/16/2008 इ.ए. -राष्ट्रपति, भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के जूनियर टाईम स्कूल (जेटीएस) स्तरीय अधिकारी श्री रघुबीर सिंह मेहरा को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 1 अक्टूबर, 2008 से 9,300--34,800/- रुपए के वेतनमान में 5400 रुपए की ग्रेड पे के साथ अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. के. राय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2009

सं. 6-1/2003-आई एन एम-ए--राष्ट्रपति, आर सी ओ एफ, इम्फाल के कमिष्ट वैज्ञानिक अधिकारी श्री आर. पी. सिंह को तदर्थ नियुक्ति राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र (पुराना नाम जैव-उर्वरक विकास केंद्र) गाजियाबाद के अधीन 8,000-275-13,500/- रु. (पूर्व संशोधित) (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय) के वेतनमान में 3.2.2009 (पूर्वाह्न) से आगे छह माह की अवधि अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, तक बढ़ाते हैं।

जे. सी. वेन, उप सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली दिनांक 23 फरवरी 2009

सं. 42018/11-1-2004-स्था. - कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय आपन संख्या 4/2008-सीएस-1(डी) दिनांक 07.01.2009 द्वारा श्री एम. एन. हल्हार को वर्ष 2005 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा (उपसचिव) के प्रवर्णन ग्रेड की प्रवर सूची में सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जनजातीय कार्य मंत्रालय में इस समय उपसचिव

(तदर्थ) के रूप में कार्य कर रहे केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री एस. एन. हलधर (सीएसएल सं. 3836) को दिनांक 01.07.2005 से केन्द्रीय सचिवालय सेवा (उपसचिव) के प्रवरण ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

सं. 42018/11(i)2004-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/9/2008-सीएस-1(डी) दिनांक 30.01.2009 द्वारा श्री कौथाम टोथांग को वर्ष 2006 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा (उपसचिव) के प्रवरण ग्रेड की प्रवर सूची में सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जनजातीय कार्य मंत्रालय में इस समय उपसचिव (तदर्थ) के रूप में कार्य कर रहे केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री कौथाम टोथांग (सीएल सं. 3610) को दिनांक 01.07.2006 से केन्द्रीय सचिवालय सेवा (उपसचिव) के प्रवरण ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

सं. 42018/11(i)2004-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/9/2008-सीएस-1(डी) दिनांक 30.01.2009 द्वारा सुश्री संतोष कुमारी को वर्ष 2006 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा (उपसचिव) के प्रवरण ग्रेड की प्रवर सूची में सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जनजातीय कार्य मंत्रालय में इस समय उपसचिव (तदर्थ) के रूप में कार्य कर रहे केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अधिकारी सुश्री संतोष कुमारी (सीएसएल सं. 2777) को दिनांक 01.07.2006 से केन्द्रीय सचिवालय सेवा (उपसचिव) के प्रवरण ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

दिनांक 24 फरवरी 2009

सं. 12034/2/2004-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/6/2007-ईओ(एमएम-1) दिनांक 12.01.2009 के अनुपालन में राष्ट्रपति, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री के निजी सचिव डॉ. एस. के. राजू भा.प्र.से. (सीजी : 98) को डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/2/94-ईओ(एमएम 11) दिनांक 24.12.1999 के तहत बढ़ाए गए "कूलिंग ऑफ" प्रावधान के साथ अपने मूल कैडर में वापस जाने के लिए दिनांक 24.02.2009 के अपराह्न से कार्यमुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 मार्च 2009

सं. 2(5)/2009-का.1--राष्ट्रपति जी ने वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्री आर. सी. मिश्रा, आईएएस (उड़ीसा : 1976) को प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रिक्त पद को अपर सचिव के स्तर पर प्रचालित करके दिनांक 18.02.2009 के पूर्वाह्न से 12,000/- रुपए (ग्रेड वेतन) के साथ 37,400--67,000/- रुपए (पीबी-4) के वेतनमान में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 मार्च 2009

सं. पी.एफ/1682/एनआईसी/2008-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री आर. रामचन्द्रन (कर्मचारी कोड सं. 1682) की राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, पांडिचेरी संघ शासित राज्य एकक, पांडिचेरी में वैज्ञानिक "एफ" के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 की पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उपनिदेशक (प्रशासन-1)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2009

सं. ई(जी.पी.)2006/3/3--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के बिजली इंजीनियरी विभाग के निम्नलिखित 48 ग्रुप 'बी' अधिकारियों की, उल्लिखित रेलों पर 14.01.2009 से भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी सेवा (आई. आर.एस.ई.ई.) के कनिष्ठ वेतनमान में नियमित रूप से नियुक्ति किए जाने का अनुमोदन करते हैं:--

क्रम सं. अधिकारी का नाम

2007-08 के लिए पैनल

मध्य रेलवे

सर्वश्री

1. के. जी. साबले
2. ए. के. रवि
3. जी. के. लखेरा
4. आर. के. चौबे
5. के. एस. स्याली

पूर्व तट रेलवे

1. एन. बी. रमेश
2. एन. पापा राव

पूर्व मध्य रेलवे

1. बी. के. पाण्डे
2. ओ. पी. एस. यादव

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	क्रम सं.	अधिकारी का नाम
पूर्व रेलवे		दक्षिण पूर्व रेलवे	
	सर्वश्री		सर्वश्री
1.	डी. के. कुण्ड	1.	एम. के. मजुमदार (अ.जा.)
2.	बीजय कुमार दास (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	2.	एन. के. पाण्डे
3.	ए. के. पोद्दार (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	3.	बी. समादार (अ.जा.)
4.	लखन च. दास (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	4.	ए. के. मुखर्जी
5.	एस. सी. नाथक (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	5.	के. पी. अधिकारी
6.	एस. पी. माडी (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	6.	ए. के. मजुमदार
		7.	एस. के. घटक
		8.	एस. के. अफताबुद्दीन
		9.	ए. के. सोलंकी (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
उत्तर मध्य रेलवे		दक्षिण रेलवे	
1.	मुरेश सी. तिवारी	1.	एस. आर. श्रीनिवासन
2.	वाई. बी. एस. चौहान	2.	एम. के. सुब्रमणियन (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
पूर्वोत्तर रेलवे		3.	जी. धनपति राव
1.	राज कुमार	पश्चिम मध्य रेलवे	
2.	पंचम राम (अ.जा.)	1.	हरीश गंजन
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे		2.	एस. के. अग्रवाल
1.	आर. के. बंगरा	3.	डी. के. श्रीधामराव
2.	एस. भट्टाचार्य	4.	प्रहलाद वर्मा (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
उत्तर रेलवे		5.	अखिलेश पी. सिंह
1.	मुनील कुमार	पश्चिम रेलवे	
2.	मुकेश चन्द्रा	1.	ललित मोहन पापनोई
3.	जग राम सिंह (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	2.	हरी प्रसाद शर्मा
4.	के. एल. बधान (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)		
उत्तर पश्चिम रेलवे			के. बी. एल. मिश्र, सचिव/रेलवे बोर्ड
1.	एन. के. चौहान		
दक्षिण मध्य रेलवे			
1.	के. एम. एन. प्रसाद		
2.	एन. दत्तात्रेय		
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे			
1.	बी. के. अहिरवार (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)		

नई दिल्ली दिनांक 20 मार्च 2009

सं. 2009-डि.जे. आर. 33-1--राष्ट्रपति जी, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल में श्री ग. इब्राहिम शरीफ को 11.12.2006 से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ममता कण्डवाल, उप निदेशक स्था. (जी आर)
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2009

सं. ए-32014/1/2005-स्था-I (बी)--कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.11.2008 के का.ज्ञा. सं. 5/12/2007-सीएस.II के तहत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) की 2005 की चयन सूची में नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की आशुलिपिक ग्रेड 'ग', श्रीमती जनक चोपड़ा को पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 9,300--34,800 रुपए के पे बैंड + 4,800 रुपए की ग्रेड पे में दिनांक 24.02.2009 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

पूर्णमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 फरवरी 2009

सं. 7/2/2006-प्रशा.II--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06 फरवरी, 2009 के का.ज्ञा. सं. 5/6/2004-सी.एस.II के तहत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव ग्रेड (प्रमुख निजी सचिव के रूप में पदनामित) की चयन सूची में उनके नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप इस मंत्रालय में तदर्थ आधार पर प्रमुख निजी सचिवों के रूप में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी दिनांक 06 फरवरी, 2009 (पूर्वाह्न) से 15,600--39,100 रुपए के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपए ग्रेड-पे में नियमित आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव ग्रेड (प्रमुख निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पद पर

नियुक्त किए जाते हैं :---

क्र. नाम सं.	प्रमुख निजी सचिव के जिस चयन सूची वर्ष में शामिल किए गए	कार्यालय
सर्वश्री		
1. ए.के. चंदवानी	2003	विज्ञापन एवं दूर्य प्रचार निदेशालय
2. एन.आर. मुरलीधरन	2003	मुख्य सचिवालय
3. सी.जी.के. पिल्लई	2004	दूरदर्शन महानिदेशालय
4. बी.डी. जोशी	2004	मुख्य सचिवालय

राम फल, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2009

सं. ए-22017/1/2007-प्रशा.I(पार्ट)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.02.2009 के का.ज्ञा. सं. 4/9/2008-सीएस-I(डी) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) की चयन सूची में नाम शामिल किए जाने पर तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग से कार्यमुक्त किए जाने पर इस मंत्रालय में सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) अधिकारी श्री एस. शशि कुमार को दिनांक 02.03.2009 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर सीएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

के. जी. मोहंता, अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 20 मार्च 2009

सं. ए31013/1/2009-न.ग्रा.नि.स./प्र.III/यू.डी.II--राष्ट्रपति, नगर एवं ग्राम नियोजक संगठन में श्री सुरेन्द्रा सोमपल्ली, नगर एवं ग्राम नियोजक को नगर एवं ग्राम नियोजक के पद पर दिनांक 24.03.2008 से मूलरूप से नियुक्त करते हैं।

के. जी. मोहंता, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 17th March 2009

No. RS.3.2.1.2009-3-Per1 The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Vandana Singh, Research Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Assistant Director (LARRDIS) in Pay Band-3, Rs. 15,600 -39,100,- plus Grade Pay of Rs. 6,600 - (Provisional) on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 20th February 2009, until further orders.

C. B. RAI, Dir.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 9th March 2009

No. A-19011.02.2008-Ad-1—Consequent upon his appointment as Secretary, Research and Analysis Wing, Cabinet Secretariat, Shri K. C. Verma, IPS (J11 : 71) relinquished the charge of the post of Secretary (Security) Cabinet Secretariat with effect from the afternoon of 31st January, 2009.

R. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

No. A-43013.01.2006-Ad-1 Consequent upon his inclusion in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of Central Secretariat Service (CSS for the year 2003 vide Department of Personnel and Training's Office Memorandum No. 41/2007-CS.IID) dated 26th December, 2008, the President is pleased to appoint Shri P. S. Verma who retired as Deputy Secretary (ad hoc) on attaining the age of superannuation on 31st October, 2007, to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis with effect from 1st July, 2003.

R. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 18th March 2009

No. F-6 (2040) 2008-Adm.1 In pursuance of ACC's approval conveyed by the Department of Personnel & Training vide their Order No. 07.3.2009-EO(SM.1) dated 18th February, 2009, the President is pleased to re-employ on contract Dr. Subas Chandra Pan, IAS (OR : 72) as Secretary, Planning Commission for a period of six months beyond 28th February, 2009, his date of superannuation, in public interest.

2. Dr. Pan will be entitled to retain his residential accommodation on the existing terms.

ANIL K. GUPTA, D. Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 19th March 2009

No. 181.1.2008-1802--In pursuance of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of

Personnel and Training's reference No. 14.3/2006-E.O. (MM-I) dated 18th February, 2009, Shri R. R. Pandey, IAS (KN : 98) is hereby relieved from the Secretariat of the Election Commission of India w.e.f. 19.03.2009 (FN), to enable him to join as Dy. Secretary in the Thirteenth Finance Commission.

SITA RAM, Under Secy.

No. A-19.01-A.96.1848 - Shri Ashish Srivastava, IAS (MP : 92) whose services have been placed at the disposal of Election Commission of India vide Department of Personnel and Training reference No. 14/1/2009-EO(MM-1) dated 13.03.2009 has been appointed as Director, Election Commission of India w.e.f. the afternoon of 19th March, 2009.

SITA RAM, Under Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110001, the 12th March 2009

No. 12016.5.2004-SSS -On attaining the age of superannuation, the following Statistical Investigator Grade-I of Subordinate Statistical Service have retired from service on the dates indicated against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Retirement
1	2	3
	S. Shri Smt.	
1.	P. K. Prasade	31.08.2008
2.	S. P. Singh	31.08.2008
3.	V. Mohan	31.08.2008
4.	S. C. S. Chauhan	31.08.2008
5.	D. Lal	31.08.2008
6.	Tarsem Lal	31.08.2008
7.	S. B. Upadhyay	31.08.2008
8.	P. S. V. Rajan	31.08.2008
9.	A. P. Singh	31.08.2008
10.	Charanjit Lal	30.09.2008
11.	C. P. Srivastava	30.09.2008
12.	D. G. Paul	31.10.2008
13.	N. V. V. Vasavada	31.10.2008
14.	Mohan Lal	31.10.2008
15.	Sudhar Kumar	31.10.2008
16.	S. K. Halpan	31.10.2008

1	2	3
	S/Shri/Smt.	
17.	Harish Chandra Singh	31.10.2008
18.	S. B. Mohapatra	30.11.2008
19.	Khuman Prasad	30.11.2008
20.	S. K. Chowdhury	30.11.2008
21.	Thaneswar Malakar	30.11.2008
22.	B. K. Muraleedharan	31.12.2008
23.	Sh. P. K. Suryawansi	31.12.2008
24.	G. S. Sharma	31.12.2008
25.	N. K. Mishra	31.12.2008
26.	B. B. Malhotra	31.12.2008
27.	Dev Raj	31.12.2008
28.	P. Maraiah	31.12.2008
29.	K. Sivaperumal	31.12.2008

In addition to above, two Statistical Investigator Grade-I of SSS have expired on the date indicated against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Retirement
	S/Shri/Smt.	
1.	Dharmeswar Malakar	07.10.2008
2.	K. C. Rao Boddapati	16.10.2008

Besides this, two Statical Investigator Gr.-I of SSS have retired from Government service voluntarily with effect the date shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Retirement
	S/Shri/Smt.	
1.	M. J. Varghese	01.09.2008
2.	K. R. Vyas	01.10.2008
3.	R. C. Srivastava	01.11.2008
4.	C. B. Tembhekar	01.11.2008

ARVIND KUMAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 20th January 2009

No. K-11017/14/2008-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice P C. Verma,

Judge of the Uttarakhand High Court as a Judge of the Allahabad High Court and to direct him to assume charge of his office in the Allahabad High Court on or before 4th February, 2009.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K-11017/13/2008-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice D. N. Patel, Judge of the Gujarat High Court as a Judge of the Jharkhand High Court and to direct him to assume charge of his office in the Jharkhand High Court on or before 4th February, 2009.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 17th March 2009

No. K-13024/4/2008-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President, is pleased to appoint (i) Shri Thiruneelakantam Sudanthiram, (ii) Shri Saminathan Nagamuthu and (iii) Shri Shumugavel Palanivelu to be Additional Judges of the Madras High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from 22.03.2009.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K-13019/1/2008-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President, is pleased to appoint (i) Shri Kuldip Singh and (ii) Shri Rajeev Sharma to be Additional Judges of the Himachal Pradesh High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from 03.04.2009.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 5th March 2009

No. 14016/28/2005-UTS-II—Under Clause (c) Sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed Shri Susheel Kumar Singh, (No. D-I/609), Inspector of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- (pre-revised) with effect from 14th January, 2009, the day on which he joined the cadre. However, the officer is allowed to avail 'notional' benefit of promotion to Entry Grade of

DANIPS with effect from 30th October, 2006, the date his junior was promoted

J. K. SINGH, Desk Officer

New Delhi, the 18th March 2009

No. I-14011-19-2008-IPS.(I) In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 1 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 03.03.2009, approved the Select List of 2008, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 18.12.2008, containing the name of Shri Pushpak Jyoti (Date of Birth 01.06.1962), a State Police Service Officer of Uttarakhand, towards filling up one substantive vacancy in the Uttarakhand Cadre of IPS for the Select List of 2008.

2. As per interim order dated 29.06.2007 of the Hon'ble High Court of Uttarakhand, Namital in Writ Petition No. 147(S:B) of 2007 filed by Provincial Police Services Association & Anr. Vs. UOI & Ors., the proposed Appointment by Promotion shall be subject to the decision in the aforesaid Writ Petition.

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011-19-2008-IPS.(I) In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint Shri Pushpak Jyoti (Date of Birth 01.06.1962), a member of Uttarakhand Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate him to the cadre of Uttarakhand under sub-rule (1) of the Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954

2. As per interim order dated 29.06.2007 of the Hon'ble High Court of Uttarakhand, Namital in Writ Petition No. 147(S:B) of 2007 filed by Provincial Police Services Association & Anr. Vs. UOI & Ors., the above Appointment by Promotion shall be subject to the decision in the aforesaid Writ Petition.

3. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

O. S. ASHOK, Under Secy.

New Delhi, the 18th March 2009

No. 37-I-2008-I.P. Shri Upal Chakraborty, Assistant Custodian in the office of Custodian of Enemy Property for India, Kolkata, is appointed on absorption basis to the post of Assistant Custodian of Enemy Property, General Central

Service, Gr. B Gazetted, non-ministerial post, in the pay scale of Rs. 6,500-10,500 - with immediate effect.

This issues with the approval of Competent Authority.

S. K. AHUJA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
& PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 19th March 2009

No. 14015-11-2008-AIS(I)-A In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Karnataka containing the following names prepared on 23rd December, 2008 under Regulation 5(5) and approved on 27th February, 2009, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Karnataka under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2008 :—

SELECT LIST 2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S Shri	
1.	R. Shantharaj	14.06.1954
2.	S. S. Pattanashetty	01.08.1957
3.	S. Shankaranarayan	18.11.1955
4.	B. N. Krishnanah	05.07.1955
5.	A. M. Kunjappa	15.09.1956

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 20th March 2009

No. 14015/09-2008-AIS(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Jammu & Kashmir containing the following names prepared on 16th December, 2008 under Regulation 5(5) and approved on 9th March, 2009, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Jammu & Kashmir under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said

Regulations in consultation with the State Government during the Select List years 2007 and 2008 :—

SELECT LIST 2007

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1*	Mohammad Aslam Laigroo	14.06.1952
2@.	Tushar Kanti Sharma	17.09.1955
3.	Mohammad Ashraf Bukhari	20.03.1956
4.	Mohamed Abbas Dar	10.01.1954
5.	Mrs. Shagufta Parveen	27.03.1955
6.	Sheikh Mushtaq Ahmed	04.12.1954

*The name at Sl. No. 1 has been included in the list provisionally subject to clearance of Criminal Proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

@The name at Sl. No. 2 has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

SELECT LIST 2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
0A*	Mohammad Aslam Laigroo	14.06.1952
0B#	Tushar Kanti Sharma	17.09.1955
1.	Mrs. Vineeta Gupta	20.05.1957
2@.	Mohammad Afzal Bhat	31.03.1958
3.	Shahid Anayatullah	20.07.1959

*The officer at Sl. No. 0A has been included in addition to normal size of the list in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(5) of the IAS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955. He has also been included in the list provisionally subject to clearance of criminal proceedings and grant of integrity certificate by the State Government.

#The officer at Sl. No. 0B has been included in addition to normal size of the list in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(5) of the IAS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955. He has also been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

@The name at Sl. No. 2 has been included in the list provisionally subject to clearance of criminal proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

2. The inclusion of the above officers in the Select lists shall be subject to final outcome of the SWP No. 244/2007 filed by Sh. Bashir Ahmad Wan.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 23rd March 2009

No. 14015/09/2008-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Jammu & Kashmir to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2007 and 2008, on probation until further orders and to allocate them to the IAS Cadre of Jammu & Kashmir, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

SELECT LIST 2007

Sl. No.	Name of the Officer
	S/Shri
1.	Mohammad Ashraf Bukhari
2.	Mohamed Abbas Dar
3.	Mrs. Shagufta Parveen
4.	Sheikh Mushtaq Ahmed

SELECT LIST 2008

Sl. No.	Name of the Officer
	S/Shri
1.	Mrs. Vineeta Gupta
2.	Shahid Anayatullah

2. The appointment of the above officers in the Select Lists shall be subject to final outcome of the SWP No. 244/2007 filed by Sh. Bashir Ahmad Wan.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/11/2008-AIS(I)-A—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Karnataka containing the following names prepared on 23rd December, 2008 under Regulation 5(5) and approved on 27th February, 2009, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Karnataka under State Civil

Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulation in consultation with the State Government for the Select List year 2008 :-

SELECT LIST 2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	R. Shantharaj	14.06.1954
2.	S. S. Pattanashetty	01.08.1957
3.	S. Shankaranarayan	18.11.1955
4.	B. N. Krishnaiah	05.07.1955
5.	A. M. Kunjappa	15.09.1956

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/09-2008-AIS(I)-B—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Jammu & Kashmir to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2007 and 2008, on probation until further orders and to allocate them to the IAS Cadre of Jammu & Kashmir, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :-

SELECT LIST 2007

Sl. No.	Name of the Officer
	S/Shri
1.	Mohammad Ashraf Bukhari
2.	Mohamed Abbas Dar
3.	Mrs. Shagufta Parveen
4.	Sheikh Mushtaq Ahmed

SELECT LIST 2008

Sl. No.	Name of the Officer
	S/Shri
1.	Mrs. Vineeta Gupta
2.	Shahid Anayatullah

2. The appointment of the above officers in the Select Lists shall be subject to final outcome of the SWP No. 244/2007 filed by Sh. Bashir Ahmad Wan.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/11/2008-AIS(I)-B—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Karnataka to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2008, on probation until further orders and to allocate them to the IAS Cadre of Karnataka, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :-

Sl. No.	Name of the Officer
	S/Shri
1.	R. Shantharaj
2.	S. S. Pattanashetty
3.	S. Shankaranarayan
4.	B. N. Krishnaiah

S. S. SHUKLA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 2nd February 2009

No. Q/PA-I/10/2009—The President is pleased to appoint the following officers of Grade-IV of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the Service with effect from the date mentioned against their names :-

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Grade after Proforma Promotion	Date of Proforma Promotion
1.	Shri Parvathaneni Harish	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS	16.01.2009 (FN)
2.	Shri Pradheep Kumar Rawat	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS	16.01.2009 (FN)
3.	Shri Pavan Kapoor	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS	01.02.2009 (FN)

2. The appointment of above officers to Grade-III of the IFS with effect from the date mentioned against their name is on Proforma basis in terms of O.M. No. 8/4/84-Estt. (Pay-I) dated the 15th July, 1985 of the Ministry of Personnel & Training.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy.
(FSP & Cadre)

No. Q/PA-I/11/2009—The President is pleased to appoint the following officers of Grade-IV of the Indian Foreign

Service (IFS) to officiate in Grade-III of the Service with effect from the date mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Grade after Promotion	Date of Promotion
1.	Shri C. Rajashekhar	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS	16.01.2009 (FN)
2.	Shri Dinesh K. Patnaik	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS	16.01.2009 (FN)
3.	Shri I. M. Pandey	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS	16.01.2009 (FN)
4.	Shri Partha Satpathy	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS	16.01.2009 (FN)
5.	Shri Sanjay Verma	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS	01.02.2009 (FN)

2. On promotion to Grade-III of IFS, the officers relinquished charge of their posts in Grade-IV of IFS in the forenoon of their respective date of promotion and assumed charge of their posts in Grade-III of IFS, with effect from forenoon of the same date.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy.
(FSP & Cadre)

No. Q/PA-I/12/2009—The President is pleased to appoint the following officers presently in Junior Administrative Grade (JAG) of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-IV of the Service with effect from the date mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Grade after Promotion	Date of Promotion
1.	Shri P. M. Thomas	JAG of IFS	Grade-IV of IFS	01.02.2009 (FN)
2.	Shri Munu Mahawar	JAG of IFS	Grade-IV of IFS	01.01.2009 (FN)
3.	Shri N. Kapoor Mahawar	JAG of IFS	Grade-IV of IFS	01.01.2009 (FN)
4.	Shri Y. K. Sailas Thangal	JAG of IFS	Grade-IV of IFS	01.01.2009 (FN)

2. On promotion to Grade-IV of IFS, the officers relinquished charge of their posts in Grade-IV of IFS in the forenoon of their respective date of promotion and assumed charge of their posts in Grade-IV of IFS, with effect from forenoon of the same date.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy.
(FSP & Cadre)

The 3rd February 2009

No. Q/PA-I/13/2009—On attaining the age of superannuation, Shri Ravi Mohan Aggarwal, Ambassador,

Embassy of India, Sana'a retired from Grade-III of the Indian Foreign Service on the afternoon of 31.01.2009.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy.
(FSP & Cadre)

The 25th February 2009

No. Q/PA-I/14/2009—The President is pleased to appoint the following officers of Grade-IV of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the Service with effect from the forenoon of 4th February 2009 :—

Name of the Officer	Present Grade	Grade after Promotion
Shri Gaddam Dharmendra	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS

2. On promotion to Grade-III of IFS, the officers relinquished charge of their posts in Grade-IV of IFS in the forenoon of 04.02.2009 and assumed charge of the post in Grade-III of IFS, with effect from forenoon of the same date.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy.
(FSP & Cadre)

The 2nd March 2009

No. Q/PA-I/15/2009—The President is pleased to appoint the following officers of Grade-IV of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the Service with effect from the forenoon of 1st March 2009 :—

Name of the Officer	Present Grade	Grade after Promotion
Shri Vanlalhuma	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS

2. On promotion to Grade-III of IFS, the officers relinquished charge of their posts in Grade-IV of IFS in the forenoon of 01.03.2009 and assumed charge of the post in Grade-III of IFS, with effect from forenoon of the same date.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy.
(FSP & Cadre)

No. Q/PA-I/16/2009—On attaining the age of superannuation, Shri Satyabrata Pal, High commissioner of India, Islamabad, retired from Grade-I of the Indian Foreign Service on the afternoon of February 28, 2009.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy.
(FSP & Cadre)

The 4th March 2009

No. Q/PA-I/17/2009—On attaining the age of superannuation, Shri M. C. Naithani, Minister, Embassy of India,

Dublin, retired from Grade-III of the Indian Foreign Service on the afternoon of 28.02.2009.

R. GAURAV SHRESTHA, Dy. Secy.
(FSP & Cadre)

The 16th March 2009

No. Q-PA-118/2009—On attaining the age of superannuation, Shri Ram Rattan, Counsellor, Embassy of India, Kabul, retired from Grade-IV of the Indian Foreign Service on the afternoon of February 28, 2009.

R. GAURAV SHRESTHA, Dy. Secy.
(FSP & Cadre)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 16th March 2009

No. 1201115/08-Adm.IA—The President is pleased to appoint Shri M. V. Vasudevan, Technical Officer (TRU) in the Department of Revenue, Ministry of Finance to the temporary post of Deputy Director (DMO) in Department of Economic Affairs, Group "A" Gazetted in the pay band 3 Rs. 15,600-39,100 + 6,600 as grade pay (Rs. 10,000-15,200 - pre revised) on ad hoc Deputation basis initially upto 31st March, 2009.

The above ad hoc appointment will not confer any right for regularization or for benefits such as seniority etc. on a future date.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

No. 2201112/2009-Adm.IA—The President is pleased to appoint Dr. P. G. S. Rao, a Senior Time Scale (STS) officer of IES, as Deputy Director in the Ministry of Finance Department of Economic Affairs, in the pay band 3 of Rs. 15,600-39,100 + with Grade Pay of Rs. 6,600 + with effect from the forenoon of 6th March, 2009 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 20th March 2009

No. A-1201112/2006-Adm.IA—In continuation of this Department's Notification of even number dated 26th December, 2006, the term of ad hoc appointment of Shri Amar Nath as Director (O.C.) (Group "A" Gazetted, ministerial), in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay band-4 of Rs. 37,400-67,000 + Rs. 8,700 + grade pay is extended upto 14.06.2009.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

New Delhi, the 19th March 2009

No. 1101212/2007-IES—The President is pleased to appoint the following candidates who were successful in the Indian Economic Service Examination 2007 conducted by the Union Public Service Commission, to the Indian Economic Service in the Junior Time Scale in the pre-revised pay scale of Rs. 8,000-275-13,500 + under Rule 6(a) of the IES Rules 2008, as amended, on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names :—

Sl. No.	Name of the officer	Date of Joining
1.	Ms. Janya Gang	02.03.2009 (F/N)
2.	Shri Manoj J. Vettickan	02.03.2009 (F/N)
3.	Shri Rangeet Ghosh	02.03.2009 (F/N)
4.	Shri Abhishek Acharya	02.03.2009 (F/N)
5.	Ms. Jyoti Yadav	02.03.2009 (F/N)
6.	Ms. Monica Jaitly	02.03.2009 (F/N)
7.	Shri Rahees M.	02.03.2009 (F/N)
8.	Shri Subrat Kumar Pradhan	02.03.2009 (F/N)
9.	Shri Sonamani Haobam	02.03.2009 (F/N)
10.	Shri Deepak Rao	02.03.2009 (F/N)
11.	Shri Subhagit Roy	02.03.2009 (F/N)
12.	Shri Rakesh Ch.	02.03.2009 (F/N)
13.	Shri Jitender Singh	02.03.2009 (F/N)
14.	Ms. Manisha Meena	02.03.2009 (F/N)
15.	Shri Prasanna V. Sallan	02.03.2009 (F/N)
16.	Shri Sasikumar S.	02.03.2009 (F/N)
17.	Shri Arun Prasad T.	02.03.2009 (F/N)
18.	Ms. Mamta	02.03.2009 (F/N)
19.	Ms. Shweta	02.03.2009 (F/N)
20.	Ms. Jaya Priyadarshini Yarikipati	02.03.2009 (F/N)

RAJAN KUMAR, Dir. (IES)

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 17th March 2009

No. A-1901123/2004-Est. —The President is pleased to extend the Central deputation tenure of Shri Anutabh Verma, IAS (BH-152), Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance for a period of three months beyond 18.03.2009.

RAMAN KUMAR GAUR, Under Secy.

The 18th March 2009

No. A-32014/1/2004-Estt.—The President is pleased to continue the ad hoc appointment of the following Section officers for the period upto 30.06.2009 or till regular incumbents become available, whichever is earlier :—

- I. Shri J. K. Grover
- II. Shri T. K. Das
- III. Shri Vashishth
- IV. Shri A. K. Sharma

2. The ad hoc promotion of the above mentioned officers will not bestow them any claim for regular appointment and services rendered by them on short-term basis in the grade will not be counted for promotion in the next higher grade.

RAMAN KUMAR GAUR, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 13th March 2009

No. A-11019/2/2009-EG.—The President is pleased to appoint Shri Samiran Das-II of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer in the office of the Accountant General (A&E), West Bengal, Kolkata in the scale of Rs. 15,600–39,100/- (Grade Pay Rs. 6,600/-) with effect from 20.01.2009 (F.N.) and until further orders.

R. PREM ANAND, Under Secy.

The 19th March 2009

No. A-11019/4/2009-EG.—The President is pleased to appoint Shri Satyanarayan Rath of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer in the office of the Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar in the scale of Rs. 15,600–39,100/- (Grade Pay Rs. 6,600/-) with effect from 28.01.2009 (F.N.) and until further orders.

R. PREM ANAND, Under Secy.

New Delhi, the 18th March 2009

No. A-12026/6/2007-Ad.I.—The President is pleased to appoint the following ad hoc Principal Private Secretaries of CSSS for regular appointment as Principal Private Secretaries against the Select List Year, 2003 in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Revised Pay Band + Grade Pay i.e. PB-3 Rs. 15,600–39,100 + 6,600/- with effect from the date as shown against their names :—

Sl. No.	Name	Department where nominated	Select List Year	Date of joining
	S/Shri			
1.	I. M. Moudgil	Expenditure	2003	20.02.2009
2.	Nahar Singh	Expenditure	2003	24.02.2009

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 20th March 2009

No. A-12015/3/2007-Ad.I.—The President is pleased to appoint Smt. Priya P. Nair (IES), Assistant Director in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, to the post of Deputy Director in the Pay Band PB-3 (Rs. 15,600–39,100) + Rs. 6,600/- (Grade Pay) with effect from the forenoon of the 3rd March, 2009 and until further orders.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 13th March 2009

No. A-12023/1/2009-E-II.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/6/2008-CS.II dated 21st January, 2009, the President is pleased to appoint Smt. Anita Chakraborty, Sr. PPS. (ad hoc) in the Department of Commerce, on regular basis in the Select List Year 2007 of Senior Principal Private Secretary Grade of CSSS cadre of the Department of Commerce w.e.f. the 21st January, 2009.

RAM LAKHAN, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 17th March 2009

F. No. 6/2331/2004-HRD-I/961—On attaining the age of superannuation Shri Kushal Kumar, Dy. DGFT, in this Office, has retired from Government service with effect from 31.03.2008 (AN).

R. S. BISHT, Dy. Dir. Genl. of Foreign Trade

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION

New Delhi, the 9th February 2009

No. A-45011/4/2008-E.I.—In partial modification of this department's notification of even number dated 21.01.2009 the names of the following officers stands deleted from the list of ad hoc Section Officers, as these officers have been included in the regular Select List 2003 of Section Officers vide notification No. A-45011/2/05-E.I. dated 05.09.2008 :—

Sl. No.	Name	Name of Deptt./Office where presently posted
	S/Shri	
15.	D. V. Vasave	Deptt. of IPP
16.	Smt. B. K. Sethi	Deptt. of H.I.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

The 16th February 2009

No. A-19011/721/2008-E.I.—Consequent on his appointment as Additional Secretary in the Ministry of Home Affairs,

Shri D. R. S. Chaudhary, IAS (MP : 77) has relinquished the charge of the post of Additional Secretary and Financial Adviser in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry with effect from the forenoon of 16th February, 2009.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

The 27th February 2009

No. A-19012/867/91-E.L.—On attaining the age of superannuation, Shri R. C. Narang, a regular Section Officer of the CSS cadre of the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry and officiating as Under Secretary (Grade-I of CSS) on ad hoc basis, shall stand retired from Government service, with effect from the afternoon of 28th February, 2009.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 18th March 2009

No. A-12025/1 2005-Admn.—Consequent upon qualifying the Stenographers Gr. B Limited Departmental Competitive Examination, 2005 held by the Union Public Service Commission and subsequent nomination by Department of Personnel & Training vide their OM No. 5/2/2009-CS-II dated 16.03.2009, the President is pleased to appoint the following substantive Stenos Gr. 'C' of this Ministry to the post of Stenos Gr. 'A&B' (Merged) (designated as PS) of CSSS cadre in this Ministry with effect from 16.03.2009 (FN), on regular basis against Select List 2005 :—

- (1) Smt. Vibha Arti
- (2) Shri Kamal Kishor

ANAND PRAKASHI, Under Secy.

The 20th March 2009

No. A-12025/1 2005-Admn.—Consequent upon inclusion in the Select List of Stenographers grade 'A&B' (Merged) of CSSS for the year 2005 vide DOP&T's OM No. 5/12/2007-CS-II dated 05.11.2008, the President is pleased to appoint Shri Anil Kumar, substantive Stenographer Gr. 'C' of the Ministry of Information & Broadcasting to the post of Stenographers Gr. 'A&B' (Merged) (designated as PS) of CSSS cadre in this Ministry on regular basis w.e.f. 19.03.2009 (FN).

2. Shri Anil Kumar is included in the Select List 2005 of the Stenographers Gr. 'A&B' (Merged) of CSSS of this Ministry.

ANAND PRAKASHI, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 6th March 2009

No. 2(21)-2004-Estt.—Consequent on inclusion of her name in the Select List (Seniority Quota) of Steno grade

'A&B' (merged) (Private Secretary) of the CSSS for the Year 2005 and her nomination for inclusion in the Select List of the Steno Grade 'A&B' (merged) of the CSSS cadre of the Ministry of Steel, vide DOP&T O.M. No. 5/12/2007-CS-II dated 05.11.2008, Smt. Veena Sachdeva, ad hoc PS of the Ministry of Defence is included in the 2005 Select List of Steno Grade 'A & B' (merged) of the CSSS cadre of the Ministry of Steel w.e.f. 23.02.2009.

2. The President is pleased to appoint Smt. Veena Sachdeva as Private Secretary [Steno Grade 'A&B' (merged)] in the same service and cadre on a regular basis w.e.f. 23.02.2009 (FN).

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 17th March 2009

No. A-12026/1 2008-CPW—Consequent upon Judgment/Order dated 13.02.2009 of Central Administrative Tribunal, Principal Bench Delhi in OA No. 52/2009, the following para stands deleted from the notification of even number dated 29th January, 2009 regarding appointment of Dr. Sant Prasad Gautam, as Chairman, Central Pollution Control Board, Delhi :—

"The appointment shall be subject to the final order in OA No. 52/2009 before the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi."

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

New Delhi-110003, the 16th February 2009

No. 18012/04/2008-IFS-II—In exercise of the powers conferred by Rule 3(2) of the IFS (Probation) Rules, 1968, the Central Government hereby confirm Sh. Arvinder Singh, IFS (Date of appointment in IFS : 01.06.1995) with effect from 31.05.1998.

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy.

New Delhi-110003, the 16th March 2009

CORRIGENDUM

No. 27013/01 2009-IFS, II—In partial modification to this Ministry's Notification No. 17013/07/99-IFS.II dated 26th June 2001, the date of birth of Shri A. K. Gupta may kindly be read as 01.07.1949 instead of 01.04.1949.

C. M. SHARMA, Under Secy.

NATIONAL RIVER CONSERVATION DIRECTORATE

New Delhi-110003, the 18th March 2009

No. A-24011/1 2007-NRCD-I—The President is pleased to appoint Shri Sushil Kumar Srivastava, Deputy Director

(Scientist 'C') on permanent absorption basis in the National River Conservation Directorate, Ministry of Environment & Forests in the Pay Scale of Rs. 15,600–39,100/- (PB-3) with Grade pay of Rs 6,600/- with effect from the forenoon of 16th March, 2009.

U. CHATTERJEE, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 23rd March 2009

No. A-38012/7/2008-Admn.-I—Dr. Ravinder Nath Salhan, Additional Director General of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 28.02.2009 (A.N.).

R. K. KALRA, Dy. Dir. Admn. (RKK)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND
COOPERATION)

New Delhi, the 16th March 2009

No. A-19012/16/2008-EA.—The President is pleased to appoint Shri Raghubir Singh Mehra, a Junior Time Scale (JTS) level officer of Indian Statistical Service (ISS), to the post of Research Officer, in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 9,300–34,800/- with Grade pay of Rs. 5,400/- with effect from the forenoon of 1st October, 2008.

D. K. ROY, Under Secy.

New Delhi, the 19th March 2009

No. 6-1/2003-INM-A—The President is pleased to extend the ad hoc appointment of Shri R. P. Singh, a Junior Scientific Officer, RCOF, Imphal in the scale of pay of Rs. 6,500—10,000/- (pre-revised) to the post of Assistant Director (old name Asstt. Microbiologist) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- (pre-revised) (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) under the National Centre of Organic Farming (old name National Bio-fertilizer Development Centre) Ghaziabad for a period of six months with effect from 03.02.2009 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

J. C. BAIN, Dy. Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 23rd February 2009

No. 42018/11(i)/2004-Estt.—Consequent upon his inclusion in the Select List of Selection Grade of Central Secretariat Service (Deputy Secretary) for the year 2005 vide Department of Personnel and Training O.M. No. 4/4/2008-CS.I(D) dated 07.01.2009, the President is pleased to

appoint Shri S. N. Halder (CSL No. 3836), an officer of CSS, presently working as Deputy Secretary (ad hoc) in the Ministry of Tribal Affairs, to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) on regular basis with effect from 01.07.2005.

A. K. SAHA, Under Secy.

No. 42018/11(i)/2004-Estt.—Consequent upon his inclusion in the Select List of Selection Grade of Central Secretariat Service (Deputy Secretary) for the year 2006 vide Department of Personnel and Training O.M. No. 4/9/2008-CS.I(D) dated 30.01.2009, the President is pleased to appoint Shri Kongthang Touthang (CSL No. 3610), an officer of CSS, presently working as Deputy Secretary (ad hoc) in the Ministry of Tribal Affairs, to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) on regular basis with effect from 01.07.2006.

A. K. SAHA, Under Secy.

No. 42018/11(i)/2004-Estt.—Consequent upon his inclusion in the Select List of Selection Grade of Central Secretariat Service (Deputy Secretary) for the year 2006 vide Department of Personnel and Training O.M. No. 4/9/2008-CS.I(D) dated 30.01.2009, the President is pleased to appoint Ms. Santosh Kumari (CSL No. 2777), an officer of CSS, presently working as Deputy Secretary (ad hoc) in the Ministry of Tribal Affairs, to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) on regular basis with effect from 01.07.2006.

A. K. SAHA, Under Secy.

The 24th February 2009

No. 12034/2/2004-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 4/6/2007-EO(MM-I) dated 12.01.2009, the President is pleased to relieve Dr. S. K. Raju, IAS (CG : 98) Private Secretary to the Hon'ble Minister for Tribal Affairs with effect from the afternoon of 24.02.2009 to his parent cadre with the provision of extended 'cooling off' in accordance with DOPT's O.M. No. 5/2/94-EO(MM.II) dated 24.12.1999.

A. K. SAHA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS &
INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 19th March 2009

No. 2(5)/2009-P.I.—The President is pleased to appoint Shri R. C. Misra, IAS (OR : 1976) presently Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of Information & Broadcasting as Additional Secretary & Financial Adviser, Department of Information Technology, Ministry of

Communications & Information Technology by operating the vacant post of Joint Secretary & Financial Adviser at the level of Additional Secretary in the pay scale of Rs. 27,400-67,000/- (PB-4) plus Rs. 12,000 - (GP) with effect from the forenoon of 18.02.2009.

GIRISH SAHAL Dy. Dir.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 18th March 2009

No. PF-1682-NIC-2008-Adm.I—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Shri R. Ramachandran, Emp. Code : 1682 from the post of Scientist "F", NIC-Pondicherry UT Unit, Pondicherry from the forenoon of 15.10.2008 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (Adm.I)

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 19th March 2009

No. E(GP)-2006-3-3 The President is pleased to approve of the under mentioned 48 Group 'B' officers of Electrical Engineering Department of Indian Railways, being appointed to the Junior Scale of Indian Railway Service of Electrical Engineers (IRSEE) with effect from 14.01.2009 on the Railways mentioned against each :—

PANEL FOR 2007-2008

Name of the Officer

S. Shri

Central Railway

1. K. G. Sable
2. A. K. Ravi
3. G. K. Lakhera
4. R. K. Chauve
5. K. S. Syali

East Coast Railway

1. N. V. Ramesh
2. N. Papa Rao

East Central Railway

1. B. K. Pandey
2. O. P. S. Yadav

Eastern Railway

1. D. K. Kundo
2. Bijay Kr. Das (SC) (Promoted against SC Vacancy)
3. A. K. Poddar (SC) (Promoted against SC Vacancy)
4. Lakhan Ch. Das (SC) (Promoted against SC Vacancy)

5. S. C. Naik (ST) (Promoted against ST Vacancy)

6. S. P. Majhi (ST) (Promoted against ST Vacancy)

North Central Railway

1. Suresh C. Tiwari
2. Y. V. S. Chaudhan

North Eastern Railway

1. Rajkumar
2. Pancham Ram (SC)

Northeast Frontier Railway

1. R. K. Borah
2. S. Bhattacharjee

Northern Railway

1. Sunil Kumar
2. Mukesh Chandra
3. Jag Ram Singh (SC) (Promoted against SC Vacancy)
4. K. L. Bhadhan (SC) (Promoted against SC Vacancy)

North Western Railway

1. N. K. Chauhan

South Central Railway

1. K. S. N. Prasad
2. N. Dattatreyaiah

South East Central Railway

1. V. K. Ahirwar (SC) (Promoted against SC Vacancy)

South Eastern Railway

1. M. K. Majumdar (SC)
2. H. K. Pandey
3. B. Samaddar (SC)
4. A. K. Mukherjee
5. K. P. Adhikari
6. A. K. Majumdar
7. S. K. Ghatak
8. S. K. Aftabuddin
9. A. K. Solanki (ST) (Promoted against ST Vacancy)

Southern Railway

1. S. R. Srinivasan
2. M. K. Subramanian (SC) (Promoted against SC Vacancy)
3. G. Dhanpaty Rao

West Central Railway

1. Harish Ranjan
2. S. K. Agarwal

3. D. K. Srivastava
4. Prahlad Verma (ST) (Promoted against ST Vacancy)
5. Akhilesh P. Singh

Western Railway

1. Lalit Mohan Papnoi
2. Hari Prasad Sharma

K. B. L. MITTAL, Secy./Railway Board

New Delhi, the 20th March 2009

No. 2001/E(GR)/I/33/1—The President is pleased to appoint Shri A. Ibrahim Sheriff in the Railway Protection Force with effect from the 11.12.2006.

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir., Estt. (GR),
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT &
HIGHWAYS
(DEPTT. OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 27th February 2009

No. A-32014/1/2005-E.I(B)—Consequent on inclusion of her name in the Select List of 2005 of Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS vide Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/12/2007-CS.II dated 05.11.2008, the President is pleased to appoint Smt. Janak Chopra, Steno Grade 'C' of CSSS cadre of Ministry of Defence as Private Secretary on regular basis in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways in the pay band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade pay of Rs. 4,800/- with effect from 24.02.2009 (FN).

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION &
BROADCASTING

New Delhi-110001, the 19th February 2009

No. 7/2/2006-Admn.I—Consequent upon inclusion of thier names in the Select List of Private Secretary's Grade (designated as Principal Private Secretary) of Central

Secretariat Stenographers' Service vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/6/2004-CS.II dated 06.02.2009, the following Officers working as Principal Private Secretaries on ad-hoc basis in this Ministry are appointed to the post of Private Secretary's Grade (designated as Principal Private Secretary) of Central Secretariat Stenographers' Service in the cadre of Ministry of Information & Broadcasting on regular basis in PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- with effect from 06.02.2009 (FN) :—

Sl. No.	Name	Included in the Select List Year of PPS	Office
	S/Shri		
1.	A. K. Chandwani	2003	DAVP
2.	N. R. Muraleedharan	2003	Main Sectt.
3.	C. G. K. Pillai	2004	DG : DD
4.	B. D. Joshi	2004	Main Sectt.

RAM PHAL, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 18th March 2009

No. A-22017/1/2007-Adm.I(Pt.)—Consequent upon his inclusion in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of CSS for the year 2006 by the Department of Personnel & Training vide their OM No. 4/9/2008-CS.I(D) dated 17.02.2009 and on his being relieved from Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, the President is pleased to appoint Shri S. Sasi Kumar, Grade-I (Under Secretary) officer of the CSS in this Ministry as Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis w.e.f. 02.03.2009 (F/N).

K. G. MOHANTA, Under Secy. (Admn.)

The 20th March 2009

No. A-31013/1/2009-TCPO/Admn.III/UD.II—The President is pleased to appoint Shri Surendra Sompalle, Town and Country Planner in the Town and Country Planning Organisation substantively to the post of Town & Country Planner on 24.03.2008.

K. G. MOHANTA, Under Secy. (Admn.)